

अग्नि से घर की रक्षा-योजना

Fact Sheet 12 – Community Risk Management. Revised 28/09/2004 - Hindi

- NSW FIRE BRIGADES
- NSW RURAL FIRE SERVICE
- ACT FIRE BRIGADE
- ACT RURAL FIRE SERVICE

यथार्थ

दुर्घटनाओं में से, घर में हुई जो मौतें एन-एस-डबल्यू. में घटी उनकी जाँच सन् 2001 के आरम्भ से की जा रही है। एन-एस-डबल्यू. अग्नि शामक दल अग्नि जाँच व अनुसंधान इकाई ने प्रकट किया है कि 13 शिकार व्यक्ति सम्भवत् बच सकते थे अगर उनके पास घर से जल्दी से निकल जाने की बचाव योजना होती।

(आंकड़े 19/08/02 के अनुसार सही है)

अग्नि से घर की रक्षा योजना की जाँच तालिका

प्रत्येक घर व कार्यालय के पास, अग्नि से बचने की योजना अवश्य होनी चाहिए। अचानक घर में लगी आग लोगो को असमंजस में डाल सकती है। बिना कोई बचाव योजना के आप अपनी व अपने परिवार की जिन्दगी खतरे में डाल रहे हैं। घर की रक्षा के लिए निम्नलिखित बातों का नियमित अभ्यास करें :

- प्रत्येक कमरे से निकलने के लिए दो सुरक्षित तरीकों को जानें
- बचाव योजना को पेज़ पर अंकित करें व अपने परिवार से उसके बारे में विचार-विमर्श करें
- जब आप बचाव के लिए बाहर निकले तो अन्दर के दरवाज़े बन्द करना न भूलें।
- बाहर मिलने के लिए सुरक्षित स्थान का निर्णय कर लें जैसेकि डाक बक्से के पास
- ठीक से जाँच लें कि आवश्यकता होने पर दरवाज़े व खिड़कियाँ जल्दी से खुल जायें।
- आग का सूचना यंत्र समोके अलअरमा लगायें तथा समय-समय पर उनकी जाँच करें व साल में एक बार बैटरी अवश्य बदलें।
- सूचना यंत्र आपको आग से सचेत करेंगे तथा बचाव की योजना आपको घर से सुरक्षित निकलने में मदद करेंगी।
- अपनी बचाव योजना का अभ्यास अपने परिवार के सारे सदस्य/रहने वालों के साथ नियमित रूप से करें।
- अगर आपके घर में आग लगी है तो इन्ज़ार न करें। प्रत्येक सैकेण्ड का महत्त्व होता है, इसलिए शीघ्र बचाव करें तथा पड़ोसी के घर से फोन पर 000 नम्बर मिलाकर सूचना दें।
- एक बार बाहर आ जाने के बाद आप बाहर ही रहें, जलते हुए घर में वापिस बिल्कुल भी न जायें।
- अपनी योजना बनाते समय बच्चों, वृद्धों तथा अपाहिज लोगो की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखें।

अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय अग्नि शामक केन्द्र या अग्नि नियंत्रण केन्द्र से सम्पर्क करें

अथवा देखें: www.fire.nsw.gov.au www.rfs.nsw.gov.au or www.esa.act.gov.au

अग्नि से बचाव के सुझाव

- याद रखें कि आग के धुँएँ से आप भ्रमित हो जायेंगे तथा आप धुँएँ में देख नहीं सकेंगे।
- जब आप सोये हुए हैं तो आपको धुँएँ की गन्ध नहीं आयेगी तथा वास्तविकता में इसके प्रभाव से आप गहरी नींद में चले जायेंगे।
- बिजली, गैस अथवा लकड़ी के हीटर को वार्षिक जाँच की आवश्यकता हो सकती है।
- बिजली के सुरक्षा खटके (electrical safety switch) लगायें तथा बताई गई स्तर के फ्युज़ का ही केवल प्रयोग करें।
- घर से आग की रक्षा पूरे परिवार के लिए आवश्यक है तथा तैयारी द्वारा दुर्घटना होने से बचाव किया जा सकता है।

आपातकाल में 000 नम्बर पर फोन कीजिए